

विक्रमादित्य नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, उज्जैन

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत)

पंजीयन क्रमांक जे.आर./यू.जे.एन. 3/94 दिनांक 30/7/94 बैंकिंग लायसेंस सं. यूबीडी एमपी 1086 पी. दिनांक 16/9/94
विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट, उज्जैन फोन: 2557530, 2563027

26 वीं वार्षिक साधारण सभा 2018-19

क्रमांक/सा.सभा/2019

दिनांक 09/09/2019

सम्माननीय सदस्य महानुभाव,

सूचना

बैंक के समस्त माननीय अंशधारियों को सूचना दी जाती है कि बैंक की 26 वीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 28/09/2019 वार शनिवार को सुबह 10:00 बजे महाकाल पेलेस हीरामिल रोड उज्जैन पर आयोजित की गई है। जिसमें निम्न विषयों पर विचार किया जाना है कृपया पधारने का कष्ट करें। नियत समय पर गणपूर्ति नही होने पर स्थगित बैठक 30 मिनट पश्चात् इसी स्थान पर सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।

विषय सूची-

1. गत वार्षिक साधारण सभा 22/9/2018 की कार्यवाही की पुष्टि करना।
2. संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तुत वार्षिक अंकेक्षित प्रतिवेदन बैलेंस शीट एवं लाभ हानि पत्रक वर्ष 2018-19 अनुमोदन विषयक।
3. संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तावित लाभ विभाजन वर्ष 2018-19 की स्वीकृति प्रदान करना।
4. वर्ष 2020-21 के प्रस्तावित बजट को स्वीकृति प्रदान करना।
5. बैंक की वर्ष 2019-20 के लेखाओं कि वैधानिक संपरीक्षा हेतु संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म कि नियुक्ति करने विषयक।
6. बैंक के संचालक मण्डल के सदस्यों एवं परिवार पर बकायादारी का व्योरा।
7. वर्ष 2020-21 की कार्य योजना की स्वीकृति प्रदान करना।
8. सदस्यों से प्राप्त सामान्य प्रश्न एवं सुझाव पर विचार।
9. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषयों पर विचार करना।

टिप्पणी-

1. उक्त प्रतिवेदन के सम्बन्ध में कोई सामान्य प्रश्न, सुझाव हो तो दिनांक 18/9/2019 तक कार्यालयीन समय में बैंक कार्यालय में भेजने का कष्ट करें।
2. उक्त प्रतिवेदन की मूल प्रति ही प्रमाणित प्रति मानी जावेगी एवं विस्तृत वार्षिक प्रतिवेदन बैंक कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं तथा इसे बैंक की वेबसाईड www.vdnsbank.com पर भी अपलोड किया गया है।

संचालक मण्डल की आज्ञा से
(शरद गुप्ता)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

सदस्यों से निवेदन -

1. जिन सदस्यों ने अंश प्रमाण पत्र एवं पासबुक प्राप्त नहीं किये हैं वे कार्यालय में अपनी KYC व 2 फोटो प्रदान कर प्राप्त कर सकते हैं।
2. सभी प्रकार के नये/पुराने खातों पर भारतीय रिजर्व बैंक निर्देशानुसार CKYC पूर्ण करें।
3. सदस्यों को वितरीत लाभांश कि राशि उनके अनिवार्य बचत खाते में जमा की जाती है।
4. दुर्घटना बीमा सहायता राशि प्राप्त करने हेतु दुर्घटना (मृत्यु/अंग-मंग होने पर) के 20 दिवस के अंदर ही बैंक को सूचना दें।



प्रति,

दुक-पोस्ट

प्रेषक

विक्रमादित्य नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, उज्जैन

विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट, उज्जैन फोन: 2557530, 2563027

विक्रमादित्य नागरिक सहकारी बँक मर्यादित, उज्जैन

विक्रमादित्य नागरिक सहकारी बँक मर्यादित उज्जैन / Vikramaditya Nagrik Sahakari Bank Maryadit, Ujjain			वार्षिक रिपोर्ट / Annual Report 2018-19	
समेकित तुलन पत्र यथा 31 मार्च, 2019 Consolidated Balance Sheet as on 31st March, 2019			(000' छोड़े गये)	(000' omitted)
विवरण	Particulars	अनुसूचि Schedule	As on 31.03.2019 Rs.	As on 31.03.2018 Rs.
पूंजी एवं देयताएं	Capital and Liabilities			
पूंजी	Capital	1	30,733	30,048
आरक्षित एवं अधिशेष	Reserves & Surplus	2	47,558	44,354
जमा राशियां	Deposits	3	846,077	776,838
उधार	Borrowings	4	-	-
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities and provisions	5	24,336	41,185
कुल	Total		948,704	892,425
आस्तियां	Assets			
नकद	Cash	6	1,286	3,528
बैंकों में शेष एवं मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन राशि	Balances with other Banks and money at call and short notice	7	347,670	334,353
निवेश	Investments	8	157,585	165,091
अग्रिम	Advances	9	422,347	372,320
अचल आस्तियां	Fixed Assets	10	4,798	4,715
अन्य आस्तियां	Other Assets	11	15,018	12,420
कुल	Total		948,704	892,425
आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	12	1,297	1,047
बसूली के लिये बिल	Bill for collection		-	-

ऊपर बताई गयी अनुसूचियां तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं The schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

तुलन पत्र, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी सूचि के फार्म 'ए' के अनुसार तैयार किया गया है.

Balance Sheet has been prepared in conformity with Form 'A' of the third schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

पिछले वर्ष के आंकड़े, जहां भी आवश्यक है पुनर्गणना पुनर्वर्गीकरण कर दर्शाए गए हैं ताकि वे तुलन पत्र को स्पष्ट पारदर्शिता से प्रदर्शित करें.

Previous year's figures, where ever found necessary, have been re-classified, re-grouped so as to give clear picture of Balance Sheet.

K.K. and Co. C.A.	Shardul Gupta CEO	Sudesh Neema Senior Manager	Dilip Barbota Director	Yashwant Jain Director	Vasudev Keswari Director	Mohanlal Kala Vice President	Ashok Bhutra Chairman
----------------------	----------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------------

विक्रमादित्य नागरिक सहकारी बँक मर्यादित उज्जैन / Vikramaditya Nagrik Sahakari Bank Maryadit, Ujjain			वार्षिक रिपोर्ट / Annual Report 2018-19	
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ-हानि खाता Consolidated Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2019			(000' छोड़े गये)	(000' omitted)
विवरण	Particulars	अनुसूचि Schedule	यथा दिनांक As on 31.03.2019 Rs	यथा दिनांक As on 31.03.2018 Rs
I आय	Income			
ब्याज आय	Interest Earned	13	71,107	73,219
अन्य आय	Other Income	14	2,033	3,319
कुल	Total		73,140	76,538
II व्यय	Expenditure			
व्यय किया गया ब्याज	Interest Expended	15	42,947	42,993
परिचालनगत व्यय	Operating Expenses	16	22,795	23,471
प्रावधान एवं आकस्मिक लाएँ	Provisions and contingencies		-	-
कुल	Total		65,742	66,464
III लाभ/ हानि	Profit/ Loss		7,398	10,074

ऊपर बताई गयी अनुसूचियां लाभ- हानि खाते का अभिन्न अंग हैं The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Accounts.

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी सूचि के फार्म 'बी' के अनुसार लाभ- हानि खाता तैयार किया गया है.

Profit & Loss has been prepared in conformity with Form 'B' of the third schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

पिछले वर्ष के आंकड़े, जहां भी आवश्यक है पुनर्गणना पुनर्वर्गीकरण कर दर्शाए गए हैं ताकि वे लाभ हानि खाते को पारदर्शिता से प्रदर्शित करें.

Previous years figures, where ever found necessary, have been re-classified, re-grouped so as to give clear transparent picture of Profit and Loss Accounts.

K.K. and Co. C.A.	Shardul Gupta CEO	Sudesh Neema Senior Manager	Dilip Barbota Director	Yashwant Jain Director	Vasudev Keswari Director	Mohanlal Kala Vice President	Ashok Bhutra Chairman
----------------------	----------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------------

विक्रमादित्य नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, उज्जैन

विषय क्रमांक 3

संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तावित लाभ विभाजन वर्ष 2018-19 की स्वीकृति प्रदान करना

प्रस्तावित लाभ विभाजन 2018-19

अ. क्र	मद	राशि
	लाभ वितरण 2018-19	7398578.71
1	रक्षित कोष (25 प्रतिशत)	1849645.00
2	सहकारी संघ अनुदान	73986.00
3	हुबत ऋण निधि	500000.00
4	भवन फण्ड	1200000.00
5	लाभांश (12 प्रतिशत)	3618000.00
6	धर्मादा निधि	8975.71
7	प्रशिक्षण निधि (2 प्रतिशत)	147972.00

[MP- Co-operative Act section 43a(m)(1-A)]

विषय क्रमांक 4

प्रस्तावित बजट वर्ष 2020-21

विवरण	Particulars	अनुसूची Schedule	Budget 2020 (000' omitted)	Budget 2021 (000' omitted)
I आय	Income			
ब्याज आय	Interest Earned	13	80,410	78,518
अन्य आय	Other Income	14	3,920	5,186
कुल	Total		84,330	83,704
II व्यय	Expenditure			
व्यय किया गया ब्याज	Interest Expended	15	46,450	45,094
परिचालनगत व्यय	Operating Expenses	16	27,631	29,138
प्रावधान एवं आकस्मिक लाभ	Provisions and contingencies			
कुल	Total		74,081	74,232
III लाभ/ हानि	Profit/ Loss		10,249	9,472
अनुसूची -13 अर्जित ब्याज	Schedule 13 Interest Earned			
I. ब्याज	I. Interest		51,610	46,340
II. निवेशों पर आय	II. Income on Investment		11,500	13,396
III. भारतीय रिजर्व बैंक आवर अन्य अंतर बैंक निधियों के शेषों पर ब्याज	III. Interest on Balance with RBI and other Inter Bank Funds		17,300	18,782
IV. अन्य	IV. Other		0	0
कुल	Total		80,410	78,518
अनुसूची -14 अन्य आय	Schedule 14 Other Income			
I. कमीशन, विनिमय आहर दलाही	I. Commission Exchange Brokerage		315	441
II. सब्सिडी और आवंटन	II. Subsidy and allocations			
IV. ऐसी संपत्तियों की बिक्री या उससे निपटने का लाभ	IV. Profit from sale of or dealing with such assets Govt Securities			3,000
V. अन्य प्राप्तियां	V. Other receipts		3,605	1,745
VI. हानि यदि कोई हो तो	VI. Loss if any			
कुल	Total		3,920	5,186
अनुसूची -15 व्यय किया गया ब्याज	Schedule 15 Interest Expended			
I. जमा पर ब्याज	I. Interest on deposits		46,250	44,986
II. आ रि बैं / अन्य बैंकों से उधार पर ब्याज	II. Interest on RBI/ Inter Bank Borrowings		200	108
कुल	Total		46,450	45,094

अनुसूची -16 परिचालनगत व्यय	Schedule 16 Operating Expenses		
I. वेतन, भत्ते एवं भविष्य निधि	I. Salaries, allowances and provident fund	13,400	12,830
II. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	II. Directors fees and allowances and expenses	0	75
III. किराया कर बीमा एवं प्रकाश	III. Rent taxes insurance and lighting etc.	3,997	4,029
किराया	i). Rent	1,500	1,600
कर	ii). Taxes	197	356
बीमा	iii). Insurance	1,600	1,421
प्रकाश एवं जल	iv). Light and Water	300	332
विधायक व्यय	v). Law Charges	100	80
डाक एवं टेलीफोन	VI. Postages and telephone charges	300	240
लेखा परिक्षकों की फीस	V. Auditors Fees	325	85
वृत्तिक व्यय	VI. Professional Charges	197	495
घसारा एवं मरम्मत	VII. Depreciation and Repairs	2,030	2,091
घसारा	i). Depreciation	1,600	1,388
मरम्मत	ii). Repairs	150	120
वार्षिक रखरखाव व्यय	iii). AMC	280	585
विज्ञापन एवं अन्य	VIII. Stationery, Advertisement etc.	400	504
गैर बैंकिंग परिसंपत्तियों की बिक्री या उससे निपटने से होने वाला नुकसान	IX. Loss from sale of or dealing with non-banking assets		
अन्य व्यय	X. Other Expenditure	2,432	4,398
कुल	Total		
	Total other Expenses		2,553
	Special AGM		600
	Rajat Jayanti Work		1,245
वार्षिक / अर्धवार्षिक / त्रैमासिक / मासिक अंशदान	XI. Annual/ Half Yearly/ Quarterly / Monthly Subscription	50	54
आयकर का अनुदान किया	XIII. Income tax paid	4,800	4,652
कुल	Total	27,631	29,138

विषय क्रमांक 5 –

बैंक की वर्ष 2019-20 की लेखाओं की वैधानिक संपरीक्षा हेतु संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म की नियुक्ति करने विषयक।

सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 58(1) के प्रावधान अनुसार संस्था के वर्ष 2019-20 के लेखाओं की संपरीक्षा रजिस्ट्रार को-आपरेटिव सोसायटी द्वारा अनुमोदित किये गये संपरीक्षक फर्म की पेनल से करवाया जाना है। संस्था के दिनांक 31/3/2019 पर समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय पत्रक अनुसार बैंक के कारोबार के आधार पर बैंक "क" श्रेणी में आती है। अतः बैंक के लेखाओं के अंकेक्षण "क" श्रेणी के संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म की पेनल से करवाया जाना है।

उपरोक्त विषय पर विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया जाता है कि बैंक का वर्ष 2019-20 के लेखाओं की संपरीक्षा निम्न में से किसी एक के द्वारा करवाई जाए।

1	G.A.G एण्ड एसोसिएट्स	FRN No. 9758C
2	के.के. एंड कंपनी	FRN No. 07691C
3	नितिन वसंत गरुड एण्ड कम्पनी	FRN No. 014133C

विषय क्रमांक 6

बैंक के संचालक मण्डल के सदस्यों एवं परिवार पर बकाया ऋण का व्योरा।

वर्तमान संचालक मण्डल के किसी भी सदस्य या उनके परिवार पर कोई ऋण नहीं है।

अ. क्र.	निर्देशक/रिश्तेदार का नाम रिश्ते का स्वरूप	स्वीकृत/नवीनिकृत दिनांक/राशि	विधिक/गैर विधिक	जमानती बकाया	गैर जमानती बकाया	जमानत का स्वरूप रकम	परिपक्वता
		NIL					

विषय क्रमांक 7

वर्ष 2020-21 की कार्ययोजना की स्वीकृति प्रदान करने बाबत।

संचालक मण्डल द्वारा 2020-21 की प्रस्तावित कार्ययोजना निम्नानुसार है-

1. बैंक की कार्यशील पूंजी को 100.00 करोड़ से अधिक करना।
2. बैंक के कुल कारोबार में वृद्धि करना।
3. बैंक की अमानतों व अंश पूंजी में वृद्धि करना।
4. रजत जयंती वर्ष मनाना।
5. नवीन टेक्नालाजी की ओर अग्रसर होना।
6. लॉकर सुविधा का विस्तार करना।
7. शाखा विस्तारीकरण करना।

संचालक मण्डल सभी अंशधारियों/ग्राहकों/अधिकारियों कर्मचारियों एवं राष्ट्रीकृत बैंको/प्रायवेट बैंको/सहाकारिता विभाग/भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य सहयोगी बैंको/कार्यालयों की सहयोग/विश्वास/निष्ठा के लिये धन्यवाद करता है। तथा आशा करता है कि भविष्य में भी आपका अमूल्य सहयोग/सुझाव बैंक को प्राप्त होता रहेगा।

सादर धन्यवाद ।

श्रीमती सुनीता पलोड
उपाध्यक्ष

मोहनलाल काला
उपाध्यक्ष

अशोककुमार भुतड़ा
अध्यक्ष

—: संचालकगण :-

शांतिलाल जैन, राजेश माहेश्वरी, वासुदेव केसवानी, दिलीपकुमार जैन, शरद पसारी, यशवंतकुमार जैन,
राजेश गर्ग, श्रीमती प्रफुल्ल गादिया, हरिनारायण बड्डवाया, अंकुर गोयल, विलास दामले

→ જામા યોજનાએ :-

बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा, आवर्ती जमा

—: अरुण योजनारें :-

केश क्रेडिट लिमिट/ ओवर ड्राफ्ट लिमिट/ कार ऋण/मिथादी ऋण/मकान ऋण/स्वर्णतारण ऋण
/वेयर हाऊस रसीद ऋण एवं अन्य ऋण योजनाएँ।

—: अन्य सुविधाएँ :-

RTGS / NEFT / CTS clearing / Locker